



बेंगलूर लगातार 10 मैचों में 40 से अधिक विकेट बनाकर कोलकाता नाइट राइडर्स

के दूसरा आईपीएल खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले बल्लेबाज रॉबिन उथप्पा ने कहा कि फलहाल उन्हें सब कुछ सपने की तरह लग रहा है क्योंकि उनकी टीम खिताब जीतने की प्रबल दावेदार नहीं मानी जा रही थी।

उथप्पा की शानदार फॉर्म की बदौलत चेन्नैन्नार की टीम अंकतालिका के नचिले हिस्से से उठते हुए फाइनल में जगह बनाने में सफल रही जहां उसने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ टूर्नामेंट में सबसे ठोस प्रदर्शन करने वाली किंग्स इलेवन पंजाब की टीम को हराकर खिताब जीता। उथप्पा ने टूर्नामेंट में 44 की औसत और 137.78 के स्ट्राइकरेट के साथ 660 रन बनाए और ग्लेन मैक्सवेल तथा ड्वेन स्मिथ जैसे खिलाड़ियों को पछाड़ कर ऑरेंज कैप हासिल करने में सफल रहे।

विकेटकीपर की भी भूमिका निभाने वाले उथप्पा ने आईपीएल की आधिकारिक वेबसाइट से कहा, “यह बेजोब है। सब कुछ सपने की तरह लग रहा है। नजदीकी तौर पर यह मेरे लिए एक साल में चौथे क्रम की तरह है। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। यह शानदार सफर है।”

उथप्पा ने कहा, “हमने अच्छी शुरुआत नहीं की थी लेकिन हमारे अंदर हमेशा से विश्वास था कि अगर हम एक बार में एक मैच पर ध्यान दें तो अपने अभियान को पटरी पर ला सकते हैं और हमने ऐसा ही किया। फाइनल में भी हमें पता था कि इस मैदान पर हम किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। हमें सरिफरन रेट बनाकर रखना होगा। सभी ने मैच में योगदान दिया।”

उन्होंने कहा कि इस साल आईपीएल जीतना उनके लक्ष्यों में से एक था। उथप्पा ने कहा, “मैंने अपने लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित कीं थे कि मुझे क्या करना है। लेकिन यह साल कुछ अलग है। रणजी ट्रॉफी, वजिय हमारे ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी और अब आईपीएल, सभी एक ही साल में। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यह कर पाऊंगा। यह बेजोब है।”

(भाषा)